

भुगतान और निपटान प्रणाली

सं. 45: भुगतान प्रणाली संकेतक

भाग I - भुगतान प्रणाली संकेतक – भुगतान तथा निपटान प्रणाली सांख्यिकी

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि.व. 2024-25	2024	2025		वि.व. 2024-25	2024	2025	
		दिसं.	नव.	दिसं.		दिसं.	नव.	दिसं.
	1	2	3	4	4	5	6	7
ए. निपटान प्रणाली								
वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)								
1 सीसीआईएल प्रचालित प्रणाली (1.1 से 1.3)	47.40	3.78	4.08	5.07	296218030	27448820	28209256	34813891
1.1 सरकारी प्रतिभूति समाशोधन (1.10.1 से 1.1.3)	17.87	1.49	1.53	1.71	185733719	16506680	17161813	20459216
1.1.1 आउटराइट	10.56	0.84	0.88	0.94	16056018	1348782	1226375	1358772
1.1.2 रेपो	4.72	0.41	0.44	0.51	77286611	6377679	7838569	9176297
1.1.3 त्रि-पक्षीय रेपो	2.58	0.24	0.21	0.26	92391091	8780219	8096869	9924147
1.2 विदेशी मुद्रा समाशोधन	28.06	2.16	2.46	3.27	100639565	9919285	10100567	13484010
1.3 रुपये के डेरिवेटिव @	1.46	0.13	0.08	0.10	9844746	1022855	946876	870666
बी. भुगतान प्रणाली								
I वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)								
1 ऋण अंतरण - आरटीजीएस (1.1 से 1.2)	3024.55	262.29	284.89	317.67	201387682	19163587	16881605	21969481
1.1 ग्राहक लेनदेन	3010.32	261.11	283.75	316.41	181153129	17161423	15505696	19992108
१.२ अंतरबैंक लेनदेन	14.23	1.17	1.14	1.26	20234553	2002163	1375908	1977373
II खुदरा								
2 ऋण अंतरण - खुदरा (2.1 से 2.6)	2061014.91	183786.41	221600.52	232522.27	79881976	6935632	7313610	8086110
2.1 एईपीएस (निधि अंतरण) @	3.64	0.31	0.26	0.21	190	17	11	12
2.2 एपीबीएस \$	32964.43	2451.41	3375.31	2357.78	554034	58705	69483	81224
2.3 आईएमपीएस	56249.68	4411.64	3689.31	3799.33	7139110	601549	615177	662452
2.4 एनएसीएच जमा \$	16938.86	1315.94	1690.81	1240.69	1670223	135695	163208	168800
2.5 एनईएफटी	96198.05	8307.02	8175.04	8777.58	44461464	3814966	3834099	4376909
2.6 यूपीआई @	1858660.25	167300.09	204669.79	216346.68	26056955	2324700	2631633	2796713
2.6.1 जिसमें से यूएसएसडी@	17.24	1.56	0.56	0.52	185	16	7	5
3 डेबिट ट्रांसफर और डायरेक्ट डेबिट (3.1 से 3.3)	21659.95	1905.47	1987.04	2012.39	2208583	198303	226304	242667
3.1 भीम आधार पे @	230.08	17.18	19.28	17.39	6907	547	609	600
3.2 एनएसीएच नामे \$	19762.28	1738.32	1835.73	1858.15	2199327	197549	225517	241878
3.3 एनईटीसी (बैंक खाते से जुड़ा) @	1667.59	149.97	132.03	136.85	2349	207	178	189
4 कार्ड भुगतान (4.1 से 4.2)	63861.15	5608.59	6041.95	6447.58	2605110	228548	222942	241961
4.1 क्रेडिट कार्ड (4.1.1 से 4.1.2)	47740.76	4328.50	5029.84	5398.34	2109197	187949	188799	204687
4.1.1 पीओएस आधारित \$	24571.10	2240.03	2538.40	2726.32	795022	73048	75640	78476
4.1.2 अन्य \$	23169.66	2088.46	2491.45	2672.02	1314175	114901	113159	126210
4.2 डेबिट कार्ड (4.2.1 से 4.2.1)	16120.39	1280.10	1012.11	1049.24	495914	40599	34143	37274
4.2.1 पीओएस आधारित \$	11980.33	964.50	763.31	794.35	332556	27609	22754	24599
4.2.2 अन्य \$	4140.06	315.60	248.80	254.89	163358	12990	11389	12675
5 प्रीपेड भुगतान लिखत (5.1 से 5.2)	70254.08	6377.99	8973.35	9755.15	216751	18992	24639	27044
5.1 वॉलेट	52898.40	4830.75	7347.33	8094.62	154066	14437	19265	20834
5.2 कार्ड (5.2.1 से 5.2.2)	17355.68	1547.24	1626.02	1660.53	62686	4556	5374	6210
5.2.1 पीओएस आधारित \$	8240.14	684.93	682.35	694.23	11512	991	1365	1391
5.2.2 अन्य \$	9115.54	862.31	943.66	966.30	51174	3565	4010	4819
6 पेपर-आधारित लिखत (6.1 से 6.2)	6095.38	506.56	448.60	476.39	7113350	587879	570251	620352
6.1 सीटीएस (एनपीसीआई प्रबंधित)	6095.38	506.56	448.60	476.39	7113350	587879	570251	620352
6.2 अन्य	0.00	—	—	—	—	—	—	—
कुल - खुदरा भुगतान (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	2222885.46	198185.02	239051.46	251213.79	92025771	7969354	8357746	9218135
कुल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	2225910.01	198447.31	239336.34	251531.46	293413453	27132941	25239350	31187617
कुल डिजिटल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	2219814.63	197940.75	238887.74	251055.07	286300103	26545062	24669100	30567264

भाग II - भुगतान के तरीके और माध्यम

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि.व. 2024-25	2024	2025		वि.व. 2024-25	2024	2025	
		दिसं.	नव.	दिसं.		दिसं.	नव.	दिसं.
		1	2	3		4	4	5
ए. अन्य भुगतान चैनल								
1 मोबाइल भुगतान (मोबाइल ऐप आधारित) (1.1 से 1.2)	1756976.91	156763.28	187787.15	198740.92	39206221	3455808	3769403	4029352
१.१ इंद्राबैंक \$	110801.96	9183.14	10306.94	10679.51	7207439	618347	637681	694233
1.2 अंतर-बैंक \$	1646174.95	147580.14	177480.21	188061.41	31998782	2837461	3131722	3335119
2 इंटरनेट भुगतान (नेटबैंकिंग / इंटरनेट ब्राउज़र आधारित) @ (2.1 से 2.2)	47478.09	4072.71	3527.10	3757.66	131858133	12203095	11864143	15193135
2.1 अंतर्बैंक @	13056.37	1155.00	809.63	875.29	69086996	6414756	6241771	8063055
2.2 अंतर-बैंक @	34421.72	2917.71	2717.48	2882.36	62771136	5788339	5622372	7130080
बी. एटीएम								
3 एटीएम से नकद निकासी \$ (3.1 से 3.3)	60308.11	4950.77	4404.78	4469.09	3063077	252471	235313	240222
3.1 क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना \$	97.25	8.12	6.72	6.96	5084	429	378	393
3.2 डेबिट कार्ड का उपयोग करना \$	59965.70	4923.54	4380.23	4444.02	3046987	251161	234055	238925
3.3 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना \$	245.16	19.11	17.83	18.11	11005	881	880	904
4 पीओएस पर नकद निकासी \$ (4.1 से 4.2)	3.58	0.29	0.14	0.14	37	3	2	2
4.1 डेबिट कार्ड का उपयोग करना \$	3.33	0.26	0.12	0.12	35	3	2	2
4.2 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना \$	0.25	0.03	0.02	0.02	3	0	0	0
5 माइक्रो एटीएम में नकद निकासी @	11640.55	910.87	1048.96	926.03	296622	23195	27358	24083
5.1 एईपीएस @	11640.55	910.87	1048.96	926.03	296622	23195	27358	24083

भाग III - भुगतान अवसंरचना (लाख)

प्रणाली	मार्च 2025 तक	2024	2025	
		दिसं.	नव.	दिसं.
	1	2	3	4
भुगतान प्रणाली अवसंरचना				
1 कार्ड की संख्या (1.1 से 1.2)	11006.97	10990.04	11465.79	11501.30
1.1 क्रेडिट कार्ड	1098.85	1080.56	1148.76	1157.84
1.2 डेबिट कार्ड	9908.12	9909.48	10317.03	10343.46
2 पीपीआई की संख्या @ (2.1 से 2.2)	13401.46	13272.19	19107.13	20873.16
2.1 वॉलेट @	8678.44	8907.25	14410.18	16170.73
2.2 कार्ड @	4723.02	4364.94	4696.95	4702.43
3 एटीएम की संख्या (3.1 से 3.2)	2.56	2.55	2.51	2.50
3.1 बैंक के स्वामित्व वाले एटीएम \$	2.20	2.19	2.13	2.13
3.2 व्हाइट लेबल एटीएम \$	0.36	0.36	0.37	0.37
4 माइक्रो एटीएम की संख्या @	14.82	14.76	14.27	14.15
5 पीओएस टर्मिनलों की संख्या	110.98	100.01	112.54	114.75
6 भारत क्यूआर @	67.18	63.83	59.53	58.90
7 यूपीआई क्यूआर *	6579.30	6335.30	7282.00	7313.65

@: नवंबर 2019 से नया समावेश
#: सहकारी बैंकों, एलएबी और आरआरबी द्वारा रिपोर्ट किया गया डेटा शामिल किया गया जो दिसंबर 2021 से प्रभावी है।
\$: नवंबर 2019 से अलग से शुरू किया गया समावेश - अभी तक अन्य मदों का हिस्सा रहा होगा।
* सितंबर 2020 से नया समावेश; केवल स्थिर यूपीआई क्यूआर कोड शामिल हैं।
टिप्पणियाँ: 1. डेटा अनंतिम है।
2. 31 जनवरी 2020 से ईसीएस (डेबिट और क्रेडिट) एनएसीएस के साथ मिला दिया गया है।
3. कार्ड पेमेंट्स (डेबिट / क्रेडिट कार्ड्स) और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) के लिए नवंबर 2019 के डेटा की पहले के महीनों / अवधि के साथ तलुना नहीं हो सकती है, क्योंकि डेटा की परिभाषाओं में संशोधन के साथ अधिक ग्रेन्युलर डेटा प्रकाशित किया जा रहा है।
4. केवल घरेलू वित्तीय लेनदेन पर विचार किया गया है। नए प्रारूप में ई-कॉमर्स लेनदेन; फास्ट टैग लेनदेन; डिजिटल बिल भुगतान और एटीएम आदि के माध्यम से कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर आदि शामिल हैं। इसके अलावा, असफल लेनदेन, चार्जबैक, रिवर्सल, एक्सपायर्ड कार्ड / वॉलेट को शामिल नहीं किया गया है।
भाग I-ए. निपटान प्रणाली
1.1.3: प्रतिभूति खंड के तहत त्रि-पक्षीय रेपो 05 नवंबर 2018 से चालू हो गया है।
भाग I-बी. भुगतान प्रणाली
4.1.2: 'अन्य' में ई-कॉमर्स लेनदेन और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।
4.2.2: 'अन्य' में ई-कॉमर्स लेनदेन, कार्ड से कार्ड ट्रांसफर और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।
5. दिसंबर 2010 से उपलब्ध।
5.1: वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और वॉलेट के माध्यम से फंड ट्रांसफर शामिल हैं।
5.2.2: ऑनलाइन लेनदेन और अन्य लेनदेन के लिए पीपीआई कार्ड का उपयोग शामिल है।
6.1: तीन छिड़ों से संबंधित - मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नई।
6.2: 'अन्य' में गैर-एमआईसीआर लेनदेन शामिल हैं जो 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन गृहों से संबंधित हैं।
भाग II-ए. अन्य भुगतान चैनल
1: मोबाइल भुगतान -
o बैंकों के मोबाइल ऐस और यूपीआई ऐस के माध्यम से किए गए लेनदेन शामिल।
o जुलाई 2017 के डेटा में मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके शुरू किए गए, संसाधित और अधिकृत केवल व्यक्तिगत भुगतान और कॉर्पोरेट भुगतान शामिल हैं। अन्य कॉर्पोरेट भुगतान जो मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके शुरू, संसाधित और अधिकृत नहीं किए गए हैं, उन्हें बाहर रखा गया है।
2: इंटरनेट भुगतान - इसमें 'नेटबैंकिंग' के माध्यम से केवल ई-कॉमर्स लेनदेन और बैंक की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट का उपयोग करके वित्तीय लेनदेन शामिल हैं।
भाग II-बी. एटीएम
3.3 और 4.2: केवल बैंक द्वारा जारी पीपीआई का उपयोग करके लेनदेन से संबंधित है।
भाग III. भुगतान प्रणाली अवसंरचना
3: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स (डब्ल्यूएलएओ) द्वारा तैनात एटीएम शामिल हैं। डब्ल्यूएलए को अप्रैल 2014 से शामिल किया गया है।